



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2008/भाद्र 6, 1930

No. 464]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2008/BHADRA 6, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 615(अ).— महुआ फूल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2007 का प्रारूप, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं० 285 तारीख 22 दिसंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिस को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 17 फरवरी, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तथा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महुआ फूल श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2008 है।
 (2) ये मधुका लेटिफोलिया और मधुका लॉगीफोलिया किस्मों से प्राप्त हुए महुआ फूल को लागू होंगे।
 (3) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 (क) “कृषि विपणन सलाहकार” से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;
 (ख) “प्राधिकृत पैकर” का वही अर्थ है, जो साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 2 के खंड (च) में है ;
 (ग) “प्राधिकार का प्रमाणपत्र” का वही अर्थ है, जो साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 2 के खंड (ट) में है ; और
 (घ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
3. **श्रेणी अभिधान चिन्ह** : श्रेणी अभिधान चिन्ह में प्राधिकार प्रमाणपत्र संख्यांक, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथाउपवर्णित के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना एगमार्क प्रतीक होगा।
4. **श्रेणी अभिधान** : महुआ फूल की क्वालिटी को उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची 2 की सारणी के स्तंभ (1) में उपवर्णित है।
5. **क्वालिटी** : महुआ फूलों की क्वालिटी वह होगी, जो अनुसूची 2 की सारणी के स्तंभ (2) से (8) में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने उपवर्णित है।

6. पैकिंग की पद्धति : (1) महुआ फूलों को, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित केवल जूट से बने ठेस, स्वच्छ और शुष्क आधानों, कपड़े के थैलों, पटलित पोलिइथायलिन या पोलिप्रोपाइलिन या उच्च सघनता के पोलिथीन के थैलों, थैलियों, डिब्बों या किसी अन्य पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

(2) आधान किसी कीटप्रस्तता या फंफूद संदूषण से मुक्त होगा और किसी अवांछनीय या घृणाजनक गंध से भी मुक्त होगा।

(3) महुआ फूलों को किसी ऐसी रीति से पैक किया जाएगा जिससे कि उपज को समुचित रूप से संरक्षित किया जा सके और आधानों को, किसी विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में सुरक्षित रूप से बंद और सीलबंद किया जाएगा।

(4) सामग्रियों का उपयोग, विशिष्ट रूप से कागज या स्टॉप वाले व्यापार दिनिर्देश अनुज्ञात है ;

परंतु यह तब जब कि मुद्रण या लेबल किसी गैर विषैली स्याही या सरेस से लगाया जाता हो।

(5) प्रत्येक पैकेज में केवल एक श्रेणी अभिधान के महुआ फूल होंगे।

(6) उसी लॉट या बैच की श्रेणीकृत सामग्री वाले महुआ फूलों के छोटे पैकेटों की समुचित संख्या होगी और श्रेणी अभिधान को, किसी प्रमुख आधान में जैसे जूट के थैलों, लकड़ी के केसों, गत्ते के डिब्बों आदि में प्रमुख आधानों पर ब्यौरी सहित पैक किया जा सकेगा ;

(7) महुआ फूलों को, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पैक साइजों में पैक किया जाएगा।

7. चिन्हांकन और लेबल लगाने की पद्धति, - (1) श्रेणी अभिधान चिन्ह, प्रत्येक आधान पर भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में सुरक्षित रूप से लगाया जाएगा या स्पष्ट रूप से और अभिट रूप से मुद्रित किया जाएगा ;

(2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट रूप से और अभिट रूप से चिन्हांकित की जाएंगी, अर्थात् :-

(क) वस्तु का नाम

- (ख) किस्म ;
- (ग) श्रेणी अधिधान ;
- (घ) पैकर का नाम और पता ;
- (ङ) शुद्ध भार ;
- (च) भंडारण स्थिति, यदि कोई हो ;
- (छ) उद्गम का देश ;
- (ज) पैकिंग की तारीख ;
- (झ) तारीख----- मास ----- वर्ष -----के पूर्व सर्वोत्तम ;
- (ञ) लाट या बैच संख्या ;
- (ट) अधिकतम खुदरा मूल्य ; और
- (ठ) कोई अन्य विशिष्टियां, जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

टिप्पण : पैकिंग की तारीख नमूने के विश्लेषण के पूरा होने की तारीख होगी ।

8. महुआ फूलों को निर्यात के लिए क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार श्रेणीकृत और चिन्हांकित किया जा सकेगा परंतु यह तब जबकि सुसंगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी की जाती हैं ।
9. प्राधिकार के प्रमाणपत्र को अनुद्धत करने के लिए विशेष शर्तें - (1) साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर समय समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।
- (2) प्राधिकृत पैकर, महुआ फूल की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हताप्राप्त रसायनज्ञ द्वारा

चलाई जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या निजी बाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच स्वेगा ।

- (3) परिसरों को प्रसंस्करण, श्रेणीकरण और पैक करने के लिए स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ हालत में रखा जाएगा ।
- (4) इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और वे किसी संसर्जन, संक्रामक या संचारी रोग से मुक्त होंगी ।
- (5) परिसर में, पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और कृतक और कीटों के अकीर्णन से मुक्त होंगे ।

अनुसूची 1

(नियम 3 देखिए)

एगमार्क प्रतीक का डिजाइन



वस्तु का नाम.....

श्रेणी.....

3242 45/08-2

अनुसूची - 2

(नियम 4 और नियम 5 देखिए)

महुआ फूलों का श्रेणी अभिधान और क्यालिटी

महुआ फूलों से, मधुका लेटिफोलिया और मधुका लॉगीफोलिया की किस्मों से प्राप्त महुआ फूलों की शुष्क कलियां अभिप्रेत हैं ।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं - (i) महुआ फूलों की वस्तु का आकार, आकृति और रंग के लक्षण होंगे ।

(ii) ये, -

- (क) शुष्क, ठोस और स्वच्छ होंगी ;
- (ख) किसी दृश्यमान बाह्य पदार्थ से मुक्त होंगी ;
- (ग) कीट आकीर्णन, जीवित कीट, मृत कीट, फफूंदी वृद्धि, लार्वे और मिलाए गए रंजक पदार्थ, कृतक बाल और मल, आदि से मुक्त होंगे ;
- (घ) किणीत, दुर्गंधयुक्त स्वाद और मिट्टी की गंध से मुक्त होंगी ;
- (ङ) गंदगी, विजातीय पदार्थ और अन्य संदूषकों से मुक्त होंगी ;
- (च) किसी फफूंदी या जिवाणु संदूषक से मुक्त होंगी ; और
- (छ) किसी बाह्य नमी से मुक्त होंगी ;
- (iii) महुआ फूलों का स्वाद और गंध उसकी उपज से जुड़ी होगी ;
- (iv) महुआ फूल, कोडेक्स एलिमेंटेरियस निर्यात आयोग द्वारा यथाअधिकथित भारी धातु के अवशिष्ट स्तरों, कीटनाशकों और अन्य खाद्य सुरक्षा मापमानों का अनुपालन करेंगे ;
- (v) यह, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के क्रमशः नियम 57, नियम 57(ख) और नियम 65 तथा उक्त नियमों के अन्य उपबंधों में यथा विनिर्दिष्ट विषैले धातुओं प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों कीटनाशकों और नाशकजीवमार की बाबत निर्बंधनों का अनुपालन करेंगे ।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापमान

सारणी

श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण						
	शुष्कता के आधार पर कार्बनिक बाह्य पदार्थ के भार की प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर अकार्बनिक बाह्य पदार्थ के भार की प्रतिशत	भार के आधार पर आर्द्रता अंतर्वस्तु की प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर कुल भस्म के भार की प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर अमल अविलय भस्म के भार की प्रतिशत	शुष्कता के आधार पर अपरिस्कृत तंतु के भार की प्रतिशत	कुल कम होने वाली चीनी घन शुक्रोज की प्रतिशत
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष	0.8	0.3	12.0	3.0	0.5	3.0	80
मानक	1.0	0.5	14.0	4.0	1.0	4.0	50
साधारण	1.5	0.8	16.0	5.0	1.5	5.0	40

4. अन्य अपेक्षाएं, - महुआ फूलों की दशा ऐसी होगी कि -

- (क) उनका पस्विहन और हथलाई की जा सके ; और
(ख) उन्हें गंतव्य स्थान पर समाधानप्रद दशा में पहुंचाया जा सके ।

स्पष्टीकरण 1- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए “ कार्बनिक बाह्य पदार्थों” से महुआ फूलों से भिन्न पौधों का वनस्पति पदार्थ अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए “अकार्बनिक बाह्य पदार्थों” से बालू, पत्थर, कंकड़, मिट्टी के ढेले, चीनीमिट्टी, मिट्टी आदि अभिप्रेत है ।

[फा. सं. 18011/21/2007-एम. 3]

यू. के. एस. चौहान, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2008

G.S.R. 615(E).— Whereas the draft of Mahua Flower Grading and Marking Rules, 2007, were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 285 dated the 22nd December, 2007, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which the copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 17th February, 2008 and whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937, (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

RULES

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called the Mahua Flower Grading and Marking Rules, 2008.

(2) They shall apply to mahua flower obtained from varieties *Madhuca latifolia* and *Madhuca longifolia*.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India as defined in clause (e) of rule 2 of the General Grading and Marking Rules, 1988;

(b) "Authorised Packer" shall have the meaning as assigned to it in clause (f) of rule 2 of the General Grading and Marking Rules, 1988;

(c) "Certificate of Authorisation" shall have the meaning as assigned to it in clause (k) of rule 2 of the General Grading and Marking Rules, 1988; and

(d) "Schedule" means the Schedules appended to these rules.

3. **Grade designation mark.** - The grade designation mark shall consist of "AGMARK INSIGNIA" consisting of a design incorporating the number of the Certificate of Authorisation, the word "AGMARK", name of the commodity and grade designation resembling the one as set out in Schedule-I.

4. **Grade designation.** - The grade designation to indicate the quality of the mahua flower shall be as set out in column (i) of the Table to Schedule-II.

5. **Quality.** - The quality of mahua flower shall be as set out against each grade designation in columns 2 to 8 of the Table to Schedule-II.

6. **Method of packing.**- (1) Mahua flower shall be packed only in sound, clean and dry containers made of jute, cloth bags, laminated polyethylene or polypropylene or high density polyethylene bags, pouches, cartons or any other packaging material duly approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf.

(2) The container shall be free from any insect infestation or fungus contamination and also free from any undesirable or obnoxious smell.

(3) Mahua flower shall be packed in such a way as to protect the produce properly and the container shall be securely closed and sealed in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf.

(4) The use of materials particularly of paper or stamps bearing trade specifications is permitted:

Provided that the printing or labeling has been done with non toxic ink or glue.

(5) Each package shall contain mahua flower of one grade designation only.

(6) Suitable number of small packets of mahua flower containing graded material of the same lot or batch and grade designation may be packed in a master container such as jute bags, wooden cases, cardboard cartons, etc., with details on master containers.

(7) Mahua flower shall be packed in the pack sizes as per instructions of the Agricultural Marketing Adviser issued from time to time.

7. **Method of marking and labeling.**- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or clearly and indelibly printed on each container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-

- (a) name of the commodity;
- (b) variety;
- (c) grade designation;
- (d) name and address of the packer;
- (f) net weight;
- (g) storage conditions, if any;
- (h) country of origin;
- (i) date of packing;

- (j) best beforedate, month and year;
- (k) lot or batch number;
- (l) maximum retail price; and
- (m) any other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.

Note. - The date of packing shall be the date of completion of the analysis of the sample.

8. Mahua flower may be graded and marked as per buyer's requirements for export provided minimum requirements specified in the relevant Schedule-II are met.

9. **Special conditions for grant of Certificate of Authorisation.** - (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988 every Authorised Packer shall follow all instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time;

(2) The Authorised Packer shall either set up his own laboratory or has access to the State Grading Laboratory or Private Commercial Laboratory approved for the purpose and manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules, 1988 for testing the quality of mahua flower.

(3) The premises for processing, grading and packing shall be maintained in perfect hygienic and sanitary conditions.

(4) The personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(5) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

SCHEDULE – I

(see rule – 3)

DESIGN OF THE AGMARK INSIGNIA



Name of the Commodity.....

Grade.....

SCHEDULE – II
(see rules 4 and 5)

Grade designation and quality of mahua flower

Mahua flower means dried corolla of Mahua flower obtained from varieties of *Madhuca latifolia* and *Madhuca longifolia*;

2. Minimum requirements. – (i) Mahua flower shall have the size, shape and colour characteristics of the commodity.
- (ii) It shall be, –
- (a) dried, sound and clean;
 - (b) free of any visible foreign matter;
 - (c) free from insect infestations, live insect, dead insects, mould growth, larvae and added colouring matter, rodent hair and excreta, etc.;
 - (d) free from fermentation, rancid taste and musty odours;
 - (e) free from dirt, extraneous matter and other adulterants;
 - (f) free from any fungal or bacterial contamination; and
 - (g) free from any external moisture.
- (iii) The taste and smell of mahua flower shall be associated with the produce.
- (iv) Mahua flower shall comply with the residue levels of heavy metals, pesticides and other food safety parameters as laid down by the Codex Alimentarius Commission for exports.

- (v) It shall comply with the restrictions in regard to metallic contaminants, naturally occurring toxic substances, insecticide and pesticides as specified in rules 57, 57B and 65 of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 respectively and other provisions of the said rules.

3. Criteria for grade designation

TABLE

Grade designation	Special characteristics						
	Organic extraneous matter per cent by mass on dry basis	Inorganic extraneous matter per cent by mass on dry basis	Moisture content per cent by mass	Total ash per cent by mass on dry basis	Acid insoluble ash per cent by mass on dry basis	Crude fibre per cent by mass on dry basis	Total reducing sugar plus sucrose per cent
	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Minimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	0.8	0.3	12.0	3.0	0.5	3.0	60
Standard	1.0	0.5	14.0	4.0	1.0	4.0	50
General	1.5	0.8	16.0	5.0	1.5	5.0	40

4. **Other requirements.** - The condition of the mahua flower shall be such as to enable them--

- to withstand transport and handling; and
- to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

Explanation 1. - For the purposes of these rules, "organic extraneous matter" means vegetable matter of plant other than the mahua flower.

Explanation 2. - For the purposes of these rules, "inorganic extraneous matter" means sand, stones, pebbles, lumps of earth, clay, mud etc.

[F. No. 18011/21/2007-M.III]

U.K.S. CHAUHAN, Jt. Secy. (Agricultural Marketing)